



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1808]

नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 24, 2008/पौष 3, 1930

No. 1808]

NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 24, 2008/PAUSA 3, 1930

कोयला मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 दिसम्बर, 2008

का.आ. 2971(अ).—केंद्रीय सरकार, कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 4 की उप-धारा (1) के अधीन जारी भारत सरकार के कोयला मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 13, तारीख 29 दिसम्बर, 2006 जो भारत के राजपत्र, साप्ताहिक, भाग II, खंड 3 उपखंड (ii) तारीख 31 दिसम्बर, 2006 से 06 जनवरी, 2007 में प्रकाशित की गई थी, द्वारा उससे संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट परिक्षेत्र की भूमि में 3287.274 हेक्टर (लगभग) या 8122.85 एकड़ (लगभग) माप वाली भूमि में कोयले का पूर्वेक्षण करने के अपने आशय की सूचना दी थी, और केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो गया है कि उक्त अधिसूचना के माध्यम से धारा 4 में उप-धारा (1) के अधीन अधिसूचित सम्पूर्ण भूमि में कोयला अभिप्राय है;

और उक्त भूमि की बाबत उक्त अधिनियम की धारा 7 की उप-धारा (1) के अधीन कोई सूचना नहीं दी गई;

अतः, अब, केंद्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा-7 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 29 दिसम्बर, 2008 से आरंभ होने वाली एक वर्ष की और अवधि को, ऐसी अवधि के रूप में, विनिर्दिष्ट करती है जिसके भीतर केंद्रीय सरकार नीचे अनुसूची में यथाविनिर्दिष्ट उक्त भूमि को या ऐसी भूमि में अथवा उस पर के किसी अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की सूचना दे सकेगी।

**अनुसूची**  
**पेलमा ब्लाक**  
**मांड रायगढ़ कोलफील्ड्स**  
**जिला रायगढ़ (छत्तीसगढ़)**

योजना संख्या- एसईसीएल/बीएसपी/जीएम(पीएलजी)/भूमि/308 तारीख 20 सितम्बर, 2006 (पूर्वक्षेपण के लिए अधिसूचित भूमि दर्शाते हुए)।

**(क) राजस्व भूमि**

क्र.सं.	ग्राम का नाम	पटवारी हल्का संख्या	बंदोबस्त संख्या	तहसील	जिला	क्षेत्र हेक्ट. में	टिप्पणियां
1	पेलमा	29	188	घरघोडा	रायगढ़	640.173	सम्पूर्ण
2	उरबा	29	8	घरघोडा	रायगढ़	428.796	सम्पूर्ण
3	लालपुर	29	285	घरघोडा	रायगढ़	284.577	सम्पूर्ण
4	खर्चा	29	295	घरघोडा	रायगढ़	78.000	भाग
5	मडवाडूमर	29	250	घरघोडा	रायगढ़	92.252	सम्पूर्ण
6	जरहीडीह	29	113	घरघोडा	रायगढ़	184.584	सम्पूर्ण
7	हिंझर	29	317	घरघोडा	रायगढ़	273.892	सम्पूर्ण
8	सेमीजोर	29	311	घरघोडा	रायगढ़	85.000	भाग
9	सक्ता	30	298	घरघोडा	रायगढ़	60.000	भाग
10	मिलू पारा	30	254	घरघोडा	रायगढ़	100.000	भाग
योग: 2227.274 हेक्टेयर							

**(ख) वन भूमि**

क्र.सं.	वन का नाम	वन का किस्म	रेंज	डिवीजन	क्षेत्र हेक्ट. में	टिप्पणी
1	तोलगे पूर्व	आरक्षित वन	तमनार	रायगढ़	400.000	भाग
2	तोलगे पश्चिम	आरक्षित वन	तमनार	रायगढ़	215.000	भाग
3	सिलोट	आरक्षित वन	तमनार	रायगढ़	445.000	भाग
				योग	1060.000 हेक्टेयर	
कुल योग: (क+ख)=2227.274+1060.000=3287.274 हेक्टेयर (लगभग) या 8122.85 एकड़ (लगभग)						

**सीमा वर्णन:**

क-ख रेखा केलो नदी और तोलगे पश्चिम आरक्षित वन की सम्मिलित सीमा पर  
ग-घ "क" बिंदु से आरंभ होती है और तोलगे पश्चिम आरक्षित वन से गुजरती हुई "घ" बिंदु पर मिलती है।

घ-ड. रेखा ग्राम सेमोजोर, तोलगे पूर्व आरक्षित वन ग्राम बाझीखोल की उत्तरी

च-छ सीमा के साथ होते हुए बाद में तोलगे पूर्व आरक्षित वन से गुजरती हुई 'छ' बिंदु पर मिलती है।

छ-ज-झ रेखा, तोलगे पूर्व आरक्षित वन से होते हुए जाती है और फिर ग्राम मिलूपारा, सक्ता, खर्सा से गुजरती हुई 'झ' बिंदु पर मिलती है।

झ-क रेखा सिलोट आरक्षित वन से होते हुए जाती है फिर केलो नदी के किनारे के साथ ग्राम पेलमा की पश्चिमी सीमा, जो कि केलो नदी का किनारा भी है, से गुजरती है और आरंभिक 'क' बिंदु पर मिलती है।

[फा. सं. 43015/11/2006-पीआरआईडब्ल्यू-1]

सूरज प्रकाश सेठ, विशेष सचिव

## MINISTRY OF COAL

### NOTIFICATION

New Delhi, the 24th December, 2008

S.O. 2971(E).— Whereas by the notification of Government of India in the Ministry of Coal, number S.O. 13 dated the 29<sup>th</sup> day of December, 2006, issued under sub-section (1) of section 4 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957) (hereinafter referred to as the said Act) and published in the Gazette of India, Weekly Part-II, section 3, sub-section (ii) dated the 31<sup>st</sup> day of December, 2006 to 6<sup>th</sup> day of January, 2007, the Central Government gave notice of its intention to prospect for coal in lands measuring 3287.274 hectares (approximately) or 8122.85 acres (approximately) in the locality specified in the Schedule appended thereto;

And whereas, the Central Government is satisfied that coal is obtainable in the whole of the land notified under sub-section (1) of section 4 through the said notification;

And whereas, in respect of the said lands, no notice under sub-section (1) of section 7 of the said Act, has been given;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the said sub-section (1) of section 7 of the said Act, the Central Government hereby specifies a further period of one year commencing from the 29<sup>th</sup> day of December, 2008, as the period within which the Central Government may give notice of its intention to acquire the said lands, as specified in the Schedule below, or any rights in or over such lands.

### SCHEDULE

#### Pelma Block

#### Mand Raigarh Coalfields, District Raigarh (Chhattisgarh)

Plan No. SECL/BSP/GM (Plg)/Land/ 308 dated the 20<sup>th</sup> day of September, 2006 (Showing the land notified for prospecting)

**(A) Revenue Land**

Serial number	Name of village	Patwari Halka number	Settlement number	Tahsil	District	Area in hectares	Remarks
1	Pelma	29	188	Gharghoda	Raigarh	640.173	Full
2	Urba	29	8	Gharghoda	Raigarh	428.796	Full
3	Lalpur	29	285	Gharghoda	Raigarh	284.577	Full
4	Kharra	29	295	Gharghoda	Raigarh	78.000	Part
5	Madwadumar	29	250	Gharghoda	Raigarh	92.252	Full
6	Jarhidih	29	113	Gharghoda	Raigarh	184.584	Full
7	Hinjhar	29	317	Gharghoda	Raigarh	273.892	Full
8	Semijor	29	311	Gharghoda	Raigarh	85.000	Part
9	Sakta	30	298	Gharghoda	Raigarh	60.000	Part
10	Milupara	30	254	Gharghoda	Raigarh	100.000	Part
<b>Total:- 2227.274 hectares</b>							

**(B) Forest land**

Serial number	Name of forest	Type of forest	Range	Division	Area in hectares	Rem.
1.	Tolge East	Reserved forest	Tamnar	Raigarh	400.000	Part
2.	Tolge West	Reserved forest	Tamnar	Raigarh	215.000	Part
3.	Silot	Reserved forest	Tamnar	Raigarh	445.000	Part
<b>Total:- 1060.000 hectares</b>						

**Grant Total (A+B) 2227.274 + 1060.000 = 3287.274 hectares (approximately) or 8122.85 acres (approximately)**

**Boundary description**

- A-B-C-D** Line starts from point 'A' on the common boundary of Kelo river and West Tolge reserved forest and passes through West Tolge reserved forest and meets at point 'D';
- D-E-F-G** Line passes through village Semijor and East Tolge reserved forest, then along northern boundary of village Bazikhol and then through East Tolge reserved forest and meets at point 'G';
- G-H-I** Line passes through East Tolge reserved forest, then through village Milupara, Sakta, Kharra and meets at point 'I';
- I-A** Line passes through Silot reserved forest, then along western boundary of village Pelma, along the bank of Kelo river and meets at the starting point 'A'.

[F.No.43015/11/2006-PRIW-I]

S. P. SETH, Special Secy.